



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]
No. 199]नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 2006/फाल्गुन 13, 1927
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 2006/PHALGUNA 13, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

मदुरै, 20 फरवरी, 2006

सं. 01/2006-सीमा शुल्क (एन.टी.)

का.आ. 284(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) धारा 152 के खंड (क) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली से जारी की गई दिनांक 1 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं. 33/94-सीमा शुल्क (एन.टी.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्वारा तमिलनाडु राज्य के विरुधुनगर जिला, अरुप्पुकोट्टे ताल्लुके के वेलायुदपुरम गाँव को, विकास आयुक्त, मे.ए.प्रो.जो. चेन्नेई के अनुमोदन के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 के अंतर्गत शत प्रतिशत निर्यात-मुख्य उपक्रम स्थापित करने के सीमित प्रयोजन हेतु भांडागार स्थान के रूप में घोषित करता हूँ।

[फा.: प.सं. IV/16/09/2006 तकनीकी]

पी. एस. सोढ़ी, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
CENTRAL EXCISE)

NOTIFICATION

Madurai, the 20th February, 2006

NO. 01/2006-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 284(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94 Cus. (N.T.) dated 1st July, 1994 issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under the Clause (a) of Section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), Velayuthapuram Village, Aruppukottai Taluk, Virudhunagar District, in the State of Tamil Nadu is hereby declared to be a Warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) for the limited purpose of setting up of 100% Export Oriented Unit as approved by the Development Commissioner, MEPZ, Chennai.

[F. C.No.IV/16/09/2006-Tech]

P. S. SODHI, Commissioner